



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 1, 2002/चैत्र 11, 1924

No. 153]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 1, 2002/CHAITRA 11, 1924

रसायन और उर्वरक मंत्रालय  
(रसायन और पेट्रो रसायन विभाग)  
अधिसूचना  
नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2002

सा. का. नि. 243(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रसायन और पेट्रो रसायन (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 1997 को, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया हो या करने से लोप किया गया हो, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में कतिपय पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रसायन और पेट्रो रसायन (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2002 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पद संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वाक्त/अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हता : वह व्यक्ति,—  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,  
उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :  
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. शिथिल करने की शक्ति :— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. व्याप्ति :— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के आधार पर या चयन-सह-ज्योष्ठता अथवा अचयन पद	सिधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक औद्योगिक सलाहकार टिप्पण:- ये नियम अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होंगे।	07* (2000)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय	8000-275- 13500/- रु.	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं  टिप्पण 1 : (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय जारी किए गए आदेशों/अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)  टिप्पण 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	नहीं

सीधे मर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ	सीधे मर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवर्धना की अवधि यदि कोई हो।
(8)	(9)	(10)
<p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नायन या जेब स्नायन या औषध निर्माण स्नायन या मेडिकल डिग्री या समतुल्य या</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नायन इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी की डिग्री या समतुल्य किसी स्नायन या औषध निर्माण या पदोन्नति उद्योग में या स्नायन अथवा औषध निर्माण उद्योगों की योजना, विकास और उत्पादन से संबंधित किसी केंद्रीय संस्कार/राज्य सरकार के विभाग में तीन वर्षों का अनुभव।</p> <p>टिप्पणी 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार स्थित की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पणी 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब स्थित की जा सकती हैं (हैं) जब वयन के किसी प्रकार पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित स्थितियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव स्थानों वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	लागू नहीं होता	एक वर्ष

<p>मर्ती की पद्धति : मर्ती सीधे होगी या प्रॉन्सति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा मरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता</p>	<p>प्रॉन्सति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा मर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रॉन्सति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा</p>
<p>(11)</p>	<p>(12)</p>
<p>सीधी मर्ती</p> <p>पदवारी की नियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई स्थितियों केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर मरी जा सकेंगी अर्थात् :-</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने 6500-10500 रु० के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पाँच वर्ष नियमित सेवा की है; और</p> <p>(ख) जिनके पास सीधे मर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्लम 8 के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।</p> <p>(ग) प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाध्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया (3) तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>	<p>लागू नहीं होता</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी सरचना	मती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) :- 1. सचिव, स्थायन और पेट्रो स्थायन विभाग 2. संयुक्त सचिव, स्थायन और पेट्रो स्थायन विभाग 3. संयुक्त सचिव, उर्वरक विभाग	सीधी मती कस्तो समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप औद्योगिक सलाहकार  टिप्पण:- ये नियम अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेंगे।	08* (2009)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय	10000-325-15200/- रु	चयन-सह-जोषता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रोन्नति	<p>प्रोन्नति :- ऐसे सहायक औद्योगिक सलाहकार जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है प्रोन्नति के लिए विचार किया जा स्या हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी प्रतियक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>

(13)	(14)
<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. सचिव, स्थायन और पेट्रो स्थायन विभाग अध्यक्ष</li> <li>2. संयुक्त सचिव, स्थायन और पेट्रो स्थायन विभाग सदस्य</li> <li>3. औद्योगिक सलाहकार, स्थायन और पेट्रो स्थायन सदस्य</li> </ol>	सघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
संयुक्त औद्योगिक सलाहकार टिप्पण:- ये नियम अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेंगे।	02* (2009)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अनुसूचितीय	12000-375- 16500/- रु	योग्यता के आधार पर चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11) प्रान्ति	(12) प्रान्ति - ऐसा उप औद्योगिक सलाहकार जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर ऐसा उप औद्योगिक सलाहकार जिसने उप औद्योगिक सलाहकार और सहायक औद्योगिक सलाहकार की श्रेणियों में दस वर्ष सम्मिलित सेवा की है जिनमें से कम से कम एक वर्ष सेवा उप औद्योगिक सलाहकार की श्रेणी में होनी चाहिए ॥ टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के सबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इन्में से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले से ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
------------------	---

(13) समूह 'क' विभागीय प्रान्ति समिति (प्रान्ति क सबंध में विचार करने के लिए) - 1 अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग 2. सचिव, स्थापन और पट्टे स्थापन विभाग 3 सचिव, उर्ध्व विभाग	(14) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
--	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अपर औद्योगिक सलाहकार टिप्पण:- ये नियम अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होंगे।	03* (2009)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित अननुसूचित	14300-400- 18300/- रु.	योग्यता के आधार पर चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रीति	<p>प्रीति- ऐसा सयुक्त औद्योगिक सलाहकार जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है जिसमें न हो सकने पर ऐसा सयुक्त औद्योगिक सलाहकार जिसने सयुक्त औद्योगिक सलाहकार और उप औद्योगिक सलाहकार की श्रेणियों में दस वर्ष सम्मिलित सेवा की है जिसमें से कम से कम एक वर्ष की सेवा सयुक्त औद्योगिक सलाहकार की श्रेणी में होनी चाहिए।</p> <p>टिप्पण.- जहाँ ऐसे क्रान्ति व्यक्तियों के सम्बन्ध में जिन्होंने अपनी अर्हक/प्राप्ति सेवा पूरी कर ली है प्रगति के लिए विचार किया जा रहा है या उनसे जेष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ प्राप्ति सेवा अपेक्षित अर्हक/ प्राप्ति सेवा के आगे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो कम न हो और उन्होंने अपने इस क्रान्ति व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/प्राप्ति सेवा पहले से ही पूरी कर ली है अपनी उच्चतर श्रेणी में प्रगति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।</p>

  

(13)	(14)
<p>महूव के विभाग प्रगति प्रगति (प्रगति के सम्बन्ध में विचार के लिए) :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, सचिव, सचिव लोक सेवा आयोग</li> <li>2. सचिव, स्थायन और पैदा रसायन विभाग</li> <li>3. सचिव, उद्योग विभाग</li> </ol>	<p>सच लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
औद्योगिक सलाहकार टिप्पण:- ये नियम अधिसूचना की तारीख से पाठ वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होंगे।	03* (2009)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसूचित	16400-450- 20000/- रु	योग्यता के आधार पर चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	<p>(12)</p> <p><u>प्रोन्नति</u> :- ऐसा अपर औद्योगिक सलाहकार जिसने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर ऐसा अपर औद्योगिक सलाहकार जिसने अपर औद्योगिक सलाहकार और संयुक्त औद्योगिक सलाहकार की श्रेणी में सात वर्ष सम्मिलित नियमित सेवा की है जिसमें से कम से कम एक वर्ष की सेवा अपर औद्योगिक सलाहकार की श्रेणी में होनी चाहिए ।</p> <p><u>टिप्पण</u>: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले से ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।</p>						
(13)	<p>(14)</p> <p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :-</p> <table border="0"> <tr> <td>1. अध्यक्ष/सदस्य, सघ लोक सेवा आयोग</td> <td>अध्यक्ष</td> </tr> <tr> <td>2. सचिव, स्थायन और पैदा स्थायन विभाग</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>3. सचिव, उर्वरक विभाग</td> <td>सदस्य</td> </tr> </table> <p>सघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।</p>	1. अध्यक्ष/सदस्य, सघ लोक सेवा आयोग	अध्यक्ष	2. सचिव, स्थायन और पैदा स्थायन विभाग	सदस्य	3. सचिव, उर्वरक विभाग	सदस्य
1. अध्यक्ष/सदस्य, सघ लोक सेवा आयोग	अध्यक्ष						
2. सचिव, स्थायन और पैदा स्थायन विभाग	सदस्य						
3. सचिव, उर्वरक विभाग	सदस्य						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ज्येष्ठ औद्योगिक सलाहकार टिप्पण:- ये नियम अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होंगे ।	02* (2009)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अनुसूचित्वितीय	18400-500- 22400/- रु	योग्यता के आधार पर चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रोन्नति	<p>प्रोन्नति :- ऐसा औद्योगिक सलाहकार जिसने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है, जिसके न हो सकने पर ऐसा औद्योगिक सलाहकार जिसने औद्योगिक सलाहकार और अपर औद्योगिक सलाहकार की श्रेणियों में चार वर्ष सम्मिलित नियमित सेवा की है, जिसमें से कम से कम एक वर्ष की सेवा औद्योगिक सलाहकार की श्रेणी में होनी चाहिए।</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इन्में से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>
(13)	(14)
<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग</li> <li>2. सचिव, रसायन और पैट्रो रसायन विभाग</li> <li>3. सचिव, उर्वरक विभाग.</li> </ol>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

[सं. ए. 12011/6/99-स्थपन]  
एच. सी. गुप्ता, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS****(Department of Chemicals and Petrochemicals)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st April, 2002

**G.S.R. 243 (E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Department of Chemicals and Petrochemicals (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 1997 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the methods of recruitment to certain posts in the Department of Chemicals and Petrochemicals in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, namely :—

**Short title and commencement –**

- (1) These rules may be called the Department of Chemicals and Petrochemicals (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2002.
- (1) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay** – The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in column (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification** – No person ---

- a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of person.

6. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

**SCHEDULE**

NAME OF POST	NO OF POST	CLASSIFICATION	SCALE OF PAY (RS )	WHETHER SELECTION BY MERIT OR SELECTION- CUM-SENIORITY OR NON- SELECTION POST	AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS	WHETHER BENEFIT OF ADDED YRS. OF SERVICE ADMISSIBLE UNDER RULE 30 OF THE CENTRAL CIVIL SERVICE (PENSION) RULES 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<p>ASSISTANT INDUSTRIAL ADVISER</p> <p><b>NOTE:</b> THESE RULES WILL BE EFFECTIVE FOR A PERIOD OF FIVE YEARS FROM THE DATE OF NOTIFICATION.</p>	<p>07* (2002)</p> <p>* SUBJECT TO VARIATION DEPENDENT ON WORKLOAD</p>	<p>GENERAL CENTRAL SERVICE GROUP A GAZETTED NON- MINISTERIAL</p>	<p>8000-275-13500</p>	<p>NOT APPLICABLE</p>	<p>NOT EXCEEDING 35 YEARS.</p> <p>NOTE 1: RELAXABLE FOR GOVERNMENT SERVANTS UPTO 5 YEARS IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS OR ORDERS ISSUED BY THE CENTRAL GOVERNMENT</p> <p>NOTE 2 THE CRUCIAL DATE FOR DETERMINING THE AGE-LIMIT SHALL BE THE CLOSING DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS FROM CANDIDATES IN INDIA (AND NOT THE CLOSING DATE PRESCRIBED FOR THOSE IN ASSAM, MEGHALAYA ARUNACHAL PRADESH, MIZORAM, MANIPUR, NAGALAND, TRIPURA, SIKKIM, LADAKH DIVISION OF JAMMU AND KASHMIR STATE, LAHAUL AND SPITI DISTRICT AND PANGI SUB DIVISION OF CHAMBA DISTRICT OF HIMACHAL PRADESH, ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS OR LAKSHADWEEP).</p>	<p>NO</p>

1089 SL, 02 - 2

EDUCATIONAL AND OTHER QUALIFICATION REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS	WHETHER AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATION PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES	PERIOD OF PROBATION IF ANY	METHOD OF RECRUITMENT WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION/ABSORPTION AND PERCENTAGE OF THE POSTS TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS	IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION/DEPUTATION/ABSORPTION, GRADES FROM WHICH PROMOTION/DEPUTATION/ABSORPTION TO BE MADE
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<p>ESSENTIAL</p> <p>(i) MASTER'S DEGREE IN CHEMISTRY OR BIOCHEMISTRY OR PHARMACEUTICAL CHEMISTRY OR PHARMACY OF A RECOGNISED UNIVERSITY OR EQUIVALENT OR DEGREE IN CHEMICAL ENGINEERING/ TECHNOLOGY OF A RECOGNISED UNIVERSITY/ INSTITUTE OR EQUIVALENT</p> <p>(ii) THREE YEARS EXPERIENCE IN A CHEMICAL OR PHARMACEUTICAL OR PETROCHEMICAL INDUSTRY OR IN A CENTRAL/STATE GOVERNMENT DEPARTMENT DEALING WITH PLANNING DEVELOPMENT PRODUCTION OF CHEMICAL OR PHARMACEUTICAL INDUSTRIES</p> <p>NOTE 1 QUALIFICATIONS ARE RELAXABLE AT THE DISCRETION OF THE UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION IN CASE OF CANDIDATES OTHERWISE WELL QUALIFIED</p> <p>NOTE 2 THE QUALIFICATION(S) REGARDING EXPERIENCE IS/ARE RELAXABLE AT THE DISCRETION OF THE UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION IN THE CASE OF CANDIDATES BELONGING TO SCHEDULED CASTES OR SCHEDULED TRIBES IF AT ANY STAGE OF SELECTION THE UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION IS OF THE OPINION THAT SUFFICIENT NUMBER OF CANDIDATES FROM THESE COMMUNITIES POSSESSING THE REQUISITE EXPERIENCE ARE NOT LIKELY TO BE AVAILABLE TO FILL UP THE POSTS RESERVED FOR THEM DESIRABLE</p> <p>DIPLOMA IN GERMAN FRENCH RUSSIAN OR ITALIAN</p>	NOT APPLICABLE	ONE YEAR	<p>DIRECT RECRUITMENT</p> <p><u>NOTE:-</u></p> <p>VACANCIES CAUSED BY THE INCUMBENT BEING AWAY ON DEPUTATION OR LONG ILLNESS OR STUDY LEAVE OR OTHER CIRCUMSTANCES FOR A DURATION OF ONE YEAR OR MORE MAY BE FILLED ON DEPUTATION BASIS FROM OFFICERS OF THE CENTRAL GOVERNMENT</p> <p>a) (i) HOLDING ANALOGOUS POSTS ON REGULAR BASIS, OR</p> <p>(ii) WITH FIVE YEARS REGULAR SERVICE IN POSTS IN THE SCALE OF Rs 6500-10500 OR EQUIVALENT AND</p> <p>b) POSSESSING THE EDUCATIONAL QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS UNDER COLUMN 8</p> <p>(PERIOD OF DEPUTATION INCLUDING PERIOD OF DEPUTATION IN ANOTHER EX-CADRE POST HELD IMMEDIATELY PRECEDING THIS APPOINTMENT IN THE SAME OR SOME OTHER ORGANISATION/DEPARTMENT OF THE CENTRAL GOVERNMENT SHALL ORDINARILY NOT TO EXCEED 3 (THREE) YEARS THE MAXIMUM AGE LIMIT FOR APPOINTMENT BY DEPUTATION SHALL BE NOT EXCEEDING 56 YEARS, AS ON THE CLOSING DATE OF RECEIPT OF APPLICATIONS)</p>	NOT APPLICABLE

IF A DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE EXISTS WHAT IS ITS COMPOSITION	CIRCUMSTANCES IN WHICH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT
(13)	(14)
<p>GROUP 'A' DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE (FOR CONSIDERING CONFIRMATION)</p> <p>1. SECRETARY, DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS- CHAIRMAN</p> <p>2. JOINT SECRETARY, DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS- MEMBER</p> <p>3. JOINT SECRETARY, DEPARTMENT OF FERTILIZERS - MEMBER</p>	CONSULTATION WITH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION NECESSARY WHILE MAKING DIRECT RECRUITMENT

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<p>DEPUTY INDUSTRIAL ADVISER</p> <p><b>NOTE:</b> THESE RULES WILL BE EFFECTIVE FOR A PERIOD OF FIVE YEARS FROM THE DATE OF NOTIFICATION</p>	<p>08* (2002)</p> <p>*SUBJECT TO VARIATION DEPENDENT ON WORKLOAD</p>	GENERAL CENTRAL SERVICE GROUP 'A' GAZETTED, NON-MINISTERIAL	10000-325-15200	SELECTION-CUM-SENIORITY	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	PROMOTION	<p><u>PROMOTION</u></p> <p>ASSISTANT INDUSTRIAL ADVISER WITH FIVE YEARS' REGULAR SERVICE IN THE GRADE.</p> <p><u>NOTE:</u> WHERE JUNIORS WHO HAVE COMPLETED THEIR QUALIFYING / ELIGIBILITY SERVICE ARE BEING CONSIDERED FOR PROMOTION, THEIR SENIORS WOULD ALSO BE CONSIDERED PROVIDED THAT THEY ARE NOT SHORT OF THE REQUISITE QUALIFYING / ELIGIBILITY SERVICE BY MORE THAN HALF OF SUCH QUALIFYING/ ELIGIBILITY SERVICE OR TWO YEARS, WHICHEVER IS LESS, AND HAVE SUCCESSFULLY COMPLETED THEIR PROBATION PERIOD FOR PROMOTION TO THE NEXT HIGHER GRADE ALONGWITH THEIR JUNIORS WHO HAVE SUCCESSFULLY COMPLETED SUCH QUALIFYING/ ELIGIBILITY SERVICE.</p>	<p>GROUP 'A' DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE (FOR CONSIDERING PROMOTION)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SECRETARY, DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS – CHAIRMAN</li> <li>2. JOINT SECRETARY, DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS – MEMBER</li> <li>3. INDUSTRIAL ADVISER, DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS – MEMBER</li> </ol>	<p>CONSULTATION WITH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION NOT NECESSARY</p>
1	2	3	4	5	6	7
JOINT INDUSTRIAL ADVISER	02* (2002) • SUBJECT TO VARIATION DEPENDENT ON WORKLOAD	GENERAL CENTRAL SERVICE GROUP 'A' GAZETTED-NON-MINISTERIAL	12000-375-16500	SELECTION BY MERIT	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE
<p><u>NOTE:</u> THESE RULES WILL BE EFFECTIVE FOR A PERIOD OF FIVE YEARS FROM THE DATE OF NOTIFICATION.</p>						

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	PROMOTION	<p><u>PROMOTION :</u></p> <p>DEPUTY INDUSTRIAL ADVISER WITH FIVE YEARS' REGULAR SERVICE IN THE GRADE, FAILING WHICH DEPUTY INDUSTRIAL ADVISER WITH TEN YEAR'S COMBINED REGULAR SERVICE IN THE GRADES OF DEPUTY INDUSTRIAL ADVISER AND ASSISTANT INDUSTRIAL ADVISER OF WHICH AT LEAST ONE YEARS' REGULAR SERVICE SHOULD BE IN THE GRADE OF DEPUTY INDUSTRIAL ADVISER.</p> <p><u>NOTE:</u> WHERE JUNIORS WHO HAVE COMPLETED THEIR QUALIFYING/ELIGIBILITY SERVICE ARE BEING CONSIDERED FOR PROMOTION, THEIR SENIORS WOULD ALSO BE CONSIDERED PROVIDED THEY ARE NOT SHORT OF THE REQUISITE QUALIFYING/ ELIGIBILITY SERVICE BY MORE THAN HALF OF SUCH QUALIFYING/ ELIGIBILITY SERVICE OR TWO YEARS, WHICHEVER IS LESS, AND HAVE SUCCESSFULLY COMPLETED THEIR PROBATION PERIOD FOR PROMOTION TO THE NEXT HIGHER GRADE ALONGWITH THEIR JUNIORS WHO HAVE ALREADY COMPLETED SUCH QUALIFYING/ELIGIBILITY SERVICE.</p>	<p>GROUP 'A' DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE (FOR CONSIDERING PROMOTION)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CHAIRMAN/MEMBER, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION – CHAIRMAN</li> <li>2. SECRETARY, DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS – MEMBER</li> <li>3. SECRETARY, DEPARTMENT OF FERTILIZERS – MEMBER</li> </ol>	CONSULTATION WITH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION NOT NECESSARY

1	2	3	4	5	6	7	8
ADDITIONAL INDUSTRIAL ADVISER	03* (2002)  *SUBJECT TO VARIATION DEPENDENT ON WORKLOAD	GENERAL CENTRAL SERVICE GROUP 'A' GAZETTED NON-MINISTERIAL	14300-400-18300	SELECTION BY MERIT	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE
<b>NOTE:</b> THESE RULES WILL BE EFFECTIVE FOR A PERIOD OF FIVE YEARS FROM THE DATE OF NOTIFICATION.							

9	10	11	12	13	14
NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	PROMOTION	<p>PROMOTION</p> <p>JOINT INDUSTRIAL ADVISER WITH FIVE YEARS' REGULAR SERVICE IN THE GRADE FAILING WHICH JOINT INDUSTRIAL ADVISER WITH TEN YEARS COMBINED REGULAR SERVICE IN THE GRADE OF JOINT INDUSTRIAL ADVISER AND DEPUTY INDUSTRIAL ADVISER OF WHICH AT LEAST ONE YEAR'S REGULAR SERVICE SHOULD BE IN THE GRADE OF JOINT INDUSTRIAL ADVISER</p> <p>NOTE : WHERE JUNIORS WHO HAVE COMPLETED THEIR QUALIFYING/ ELIGIBILITY SERVICE ARE BEING CONSIDERED FOR PROMOTION, THEIR SENIORS WOULD ALSO BE CONSIDERED PROVIDED THEY ARE NOT SHORT OF THE REQUISITE QUALIFYING /ELIGIBILITYSERVICE BY MORE THAN HALF OF SUCH QUALIFYING/ELIGIBILITY SERVICE OR TWO YEARS, WHICHEVER IS LESS, AND HAVE SUCCESSFULLY COMPLETED THEIR PROBATION PERIOD FOR PROMOTION TO THE NEXT HIGHER GRADE ALONGWITH THEIR JUNIORS WHO HAVE ALREADY COMPLETED SUCH QUALIFYING / ELIGIBILITY SERVICE.</p>	<p>GROUP 'A' DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE (FOR CONSIDERING PROMOTION)</p> <hr/> <p>1. CHAIRMAN/MEMBER, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION - CHAIRMAN</p> <p>3. SECRETARY, DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS - MEMBER</p> <p>3. SECRETARY, DEPARTMENT OF FERTILIZERS - MEMBER</p>	CONSULTATION WITH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION NOT NECESSARY

1	2	3	4	5	6	7	8
INDUSTRIAL ADVISER	03* (2002)  *SUBJECT TO VARIATION DEPENDENT ON WORKLOAD	GENERAL CENTRAL SERVICE GROUP 'A' GAZETTED, NON-MINISTERIAL	16400-450-20000	SELECTION BY MERIT	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE
NOTE: THESE RULES WILL BE EFFECTIVE FOR A PERIOD OF FIVE YEARS FROM THE DATE OF NOTIFICATION.							

9	10	11	12	13	14
NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	PROMOTION	<u>PROMOTION</u>  ADDITIONAL INDUSTRIAL ADVISER WITH TWO YEARS' REGULAR SERVICE IN THE GRADE FAILING WHICH ADDITIONAL INDUSTRIAL ADVISER WITH SEVEN YEARS COMBINED REGULAR SERVICE IN THE GRADES OF ADDITIONAL INDUSTRIAL ADVISER AND JOINT INDUSTRIAL ADVISER OF WHICH AT LEAST ONE YEAR'S REGULAR SERVICE SHOULD BE IN THE GRADE OF ADDITIONAL INDUSTRIAL ADVISER  <u>NOTE</u> WHERE JUNIORS WHO HAVE COMPLETED THEIR QUALIFYING/ ELIGIBILITY SERVICE ARE BEING CONSIDERED FOR PROMOTION, THEIR SENIORS WOULD ALSO BE CONSIDERED PROVIDED THEY ARE NOT SHORT OF THE REQUISITE QUALIFYING /ELIGIBILITY SERVICE BY MORE THAN HALF OF SUCH QUALIFYING/ ELIGIBILITY SERVICE OR TWO YEARS, WHICHEVER IS LESS, AND HAVE SUCCESSFULLY COMPLETED THEIR PROBATION PERIOD FOR PROMOTION TO THE NEXT HIGHER GRADE ALONGWITH THEIR JUNIORS WHO HAVE ALREADY COMPLETED SUCH QUALIFYING/ ELIGIBILITY SERVICE.	GROUP 'A' DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE (FOR CONSIDERING PROMOTION)  1. CHAIRMAN/MEMBER, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION - CHAIRMAN  2. SECRETARY, DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS - MEMBER  3. SECRETARY DEPARTMENT OF FERTILIZERS - MEMBER	CONSULTATION WITH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION NOT NECESSARY

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SENIOR INDUSTRIAL ADVISER  <b>NOTE:</b> THESE RULES WILL BE EFFECTIVE FOR A PERIOD OF FIVE YEARS FROM THE DATE OF NOTIFICATION.	02* (2002) *SUBJECT TO VARIATION DEPENDENT ON WORKLOAD.	GENERAL CENTRAL SERVICE GROUP 'A' GAZETTED, NON-MINISTERIAL	18400-500-22400	SELECTION BY MERIT	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	PROMOTION	<p>PROMOTION</p> <p>INDUSTRIAL ADVISER WITH TWO YEARS' REGULAR SERVICE IN THE GRADE FAILING WHICH INDUSTRIAL ADVISER WITH FOUR YEARS' COMBINED REGULAR SERVICE IN THE GRADES OF INDUSTRIAL ADVISER AND ADDITIONAL INDUSTRIAL ADVISER OF WHICH AT LEAST ONE YEARS'S REGULAR SERVICE SHOULD BE IN THE GRADE OF INDUSTRIAL ADVISER.</p> <p><u>NOTE:</u> WHERE JUNIORS WHO HAVE COMPLETED THEIR QUALIFYING/ELIGIBILITY SERVICE ARE BEING CONSIDERED FOR PROMOTION, THEIR SENIORS WOULD ALSO BE PROVIDED THEY ARE NOT SHORT OF THE QUALIFYING/ELIGIBILITY SERVICE BY MORE THAN HALF QUALIFYING/ ELIGIBILITY SERVICE OR TWO YEARS, WHATEVER, AND HAVE SUCCESSFULLY COMPLETED THEIR PERIOD FOR PROMOTION TO THE NEXT HIGHER GRADE. THEIR JUNIORS WHO HAVE ALREADY COMPLETED SUCH ELIGIBILITY SERVICE.</p>	<p>GROUP 'A' DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE FOR CONSIDERING PROMOTION</p> <p>=====</p> <p>1. CHAIRMAN/ MEMBER, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION - CHAIRMAN</p> <p>2. SECRETARY, DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS - MEMBER</p> <p>3. SECRETARY, DEPARTMENT OF FERTILIZERS- MEMBER</p>	<p>CONSULTATION WITH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION NOT NECESSARY</p>

[No. A-12011/6/99-Estt.]  
H. C. GUPTA, Jr. Secy.